



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 2017/चैत्र 7, 1939

No. 114]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 2017/CHAITRA 7, 1939

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2017

फा. सं. मानक/ओ.एंड एफ./अधिसूचना(6)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2017.—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) के अधीन, अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियम पर, उक्त तारीख से जिसको इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ, जिसमें यह प्रकाशित की गई है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड़, नई दिल्ली-110002 को अथवा ईमेल पते द्वारा regulation@fssai.gov.in पर भेजे जा सकते हैं;

आक्षेपों और सुझावों, जो किसी भी व्यक्ति से उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त किए जाएंगे, खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) पहला संशोधन विनियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 4 के भाग -V, के पैरा -II, के उप-पैरा 3 में, खाना बनाने से संबंधित, खंड (ज) में निम्नलिखित शब्द और अंक अन्तः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्-

“तथापि, ऐसे वनस्पति तेल का, जिसमें कुल पोलर कम्पाऊन्ड 25 प्रतिशत से अधिक विकसित हो गया है, उपयोग नहीं किया जाएगा।”

पवन कुमार अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./479/16]

टिप्पण.- मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4, में अधिसूचना सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा उनका संशोधन किया गया:

- (i) एफ. सं.2-15015/30/2012, तारीख 10 जून, 2014; तथा
- (ii) एफ. सं.2-15015/30/2012, तारीख 13 जुलाई, 2016।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2017

F. No. Stds/O&F/Notification(6)/FSSAI-2017 .— The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (o) of sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required under sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in;

Objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of period so specified, shall be considered by the Food Authority;

Draft Regulations

1. **Short title and commencement—**(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) First Amendment Regulations, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011, in Schedule 4, in Part-V, in paragraph II, in sub-paragraph 3 relating to cooking, in clause (j) , the following word and figure shall be inserted, namely-

“However, vegetable oil having developed Total Polar Compound more than 25% shall not be used.”.

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./479/16]

Note. - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended *vide* notification numbers:

- i) F. No. 2-15015/30/2012, dated the 10th June, 2014; and
- ii) F. No. 2-15015/30/2012, dated the 13th July, 2016.